

परियोजना के बारे में ताज़ा जानकारी



ऐम्ब्रिको और क्लिंकर प्लेस स्टॉर्मवाटर अपग्रेड

ऑकलैंड काउंसिल का हेल्दी वाटर्स विभाग इलाके में स्टॉर्मवाटर नेटवर्क में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए काम कर रहा है, ताकि उसे भविष्य में होने वाली नई घटनाओं से सुरक्षित किया जा सके। हम नया स्टॉर्मवाटर पाइप इंस्टॉल कर रहे हैं जो न्यू लिन में आगामी क्लिंकर प्लेस विशेष आवास क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा जहाँ ऑकलैंड के वासियों के लिए नए मकान बनाए जा रहे हैं।


इस परियोजना को अगस्त में संसाधन सहमति दी गई थी लेकिन ऑकलैंड के लेवल 4 लॉकडाउन के कारण हुए विलम्ब के चलते इसे अब तक शुरू नहीं किया गया है। हम नए कोविड-19 ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अधीन सुरक्षापूर्वक काम शुरू कर सकते हैं और फरवरी 2022 के अंत में निर्माण-कार्य शुरू करेंगे, जिसके 2023 के मध्य में पूरा होने की संभावना है।

परियोजना के प्लान का सार

एक नया स्टॉर्मवाटर पाइप क्लिंकर प्लेस विकास साइट से शुरू होकर ऐम्ब्रिको प्लेस से होते हुए मनावा वेटलैंड रिजर्व में नए निकास तक लगभग 550 मीटर की दूरी तक जमीन के नीचे चलेगा। खाई से रहित कार्य पद्धति में एक टनल बोरिंग मशीन (TBM) का उपयोग किया जाएगा, जिससे हमें जनता के कामकाज में खलल को कम करने में मदद मिलेगी।

तीन आवश्यक शाफ्टों के इंस्टॉलेशन में सहायता के लिए तीन मुख्य साइट क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जो निम्नलिखित स्थानों में स्थित होंगे:

- शाफ्ट 1 - मेलव्यू प्लेस, मनावा वेटलैंड रिजर्व के बगल में और 10 ऐम्ब्रिको प्लेस के सामने।
- शाफ्ट 2 - 5 ऐम्ब्रिको प्लेस (जिसे ऐम्ब्रिको रिजर्व के नाम से जाना जाता है) में रोड रिजर्व के भीतर।
- शाफ्ट 3 - क्लिंकर प्लेस विकास साइट के भीतर, जहाँ 8 रैंकिन एवेन्यू से पहुँचा जा सकता है।



शाफ्टों का उपयोग TBM को लॉन्च करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। रैंकिन एवेन्यू साइट का उपयोग मुख्य निर्माण मंचन क्षेत्र के रूप में किया जाएगा।

क्या अपेक्षाएं हैं

हमारे ठेकेदार, एबरजेल्डी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शाफ्ट 2 और 3 के लिए साइट स्थापित करके काम आरंभ करेंगे। इन क्षेत्रों को बाड़ लगाकर जनता से सुरक्षित रूप से अलग किया जाएगा।

दो शाफ्टों का निर्माण पूरा होने के बाद, TBM रैंकिन एवेन्यू साइट से ऐम्ब्रिको रिजर्व तक 200 मीटर की सुरंग बनाना शुरू करेंगे। इस दौरान, हम सुरंग बनाने के दूसरे चरण की तैयारी में शाफ्ट 1 के लिए साइट स्थापित करेंगे।

जब TBM ऐम्ब्रिको रिजर्व शाफ्ट तक पहुँच जाएगी, तब मेलब्यू प्लेस तक शेष 200 मीटर की सुरंग बनाना जारी करने से पहले इसकी स्थिति में यथोचित परिवर्तन किया जाएगा।


परियोजना के पूरे होने के बाद सड़क और रिजर्व के सभी क्षेत्रों को यथावत् कर दिया जाएगा।

यह आपको कैसे प्रभावित करेगा?

ऐम्ब्रिको रिजर्व का लगभग 40 प्रतिशत भाग जनता के लिए बंद रहेगा। इससे खेल का मैदान प्रभावित नहीं होगा।

निर्माण का काम सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। काम के घंटों के दौरान, निर्माण के कारण थोड़ा शोर होगा, बड़े ट्रकों की गतिविधियाँ होंगी, कंपन होगा और संभवतः थोड़ी धूल उड़ेगी। शोर, धूल और कंपन पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक सीमाओं के अंदर रहें। बड़े ट्रकों की गतिविधियों को खलल कम करने की दृष्टि से न्यूनतम रखा जाएगा।

एक ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। लाल रंग में दिखाई गई पार्किंग ऐम्ब्रिको रिजर्व के चारों ओर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेगी, जिससे हम सारी परियोजना के दौरान ट्रैफिक के दो लेन कायम रख सकेंगे। यदि हमें नारंगी रंग में दिखाई गई पार्किंग को हटाने की जरूरत पड़ती



है तो हम आपसे अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे।

हमारे ठेकेदार सरकार के कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त स्वच्छता उपायों और सामाजिक दूरी का पालन करके सर्वोच्च स्तर के स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय कायम रखेंगे।

सामुदायिक गतिविधियाँ

हमें आशा है कि हम निर्माण अवधि के दौरान गतिविधियाँ प्रदान कर सकेंगे। वर्तमान कोविड-19 ढाँचे के प्रतिबंधों के तहत, हम इस समय किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम में से गुजरने के दौरान, हम सामुदायिक कार्यक्रमों की संभावना का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और आपको अवगत कराएँगे।



मदद चाहिए?



aucklandcouncil.govt.nz/clinkerplacehw पर जाएं



फोन: 09 301 0101



ईमेल: clinkerplaceHW@aucklandcouncil.govt.nz